



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 3—मार्च 9, 2007 (फाल्गुन 12, 1928)
No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 3—MARCH 9, 2007 (PHALGUNA 12, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 2007

सं. आरएस/3 (viii)/2007/17-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति, राज्य सभा सचिवालय में कनिष्ठ संसदीय भाषांतरकार श्री मंजुल कुमार पांडेय को इस सचिवालय में संसदीय भाषांतरकार के ग्रेड में स्थापनापन्न रूप से कार्य करने के लिए 12 फरवरी, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

सी. बी. राय, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2007

सं. ए-12025/01/2005-प्रशा. II.--राष्ट्रपति, श्री अशोक कुमार शर्मा, सहायक निदेशक, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली को विशुद्धतः तदर्थ प्रतिनियुक्ति के आधार पर 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के रूप में दिनांक 02.02.2007 (अपराह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 फरवरी 2007

सं. ए-19013/01/2007-प्रशा. 1.--राष्ट्रपति, श्री राहुल दुआ, भार.सं.से. (1983) को, 1 फरवरी, 2007 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, मंत्रिमंडल सचिवालय में निदेशक (सुरक्षा) के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. कृष्णामूर्ति, अवर सचिव

आर. के. परमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 2007

सं. ए-32014/2/2006-प्रशासन III.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.05.2006, 20.07.2006, 3.11.2006 और 22.12.2006

के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/8/2006 और एस-II के अनुसरण में, राष्ट्रपति, सीएसएसएस काडर के निम्नलिखित ग्रेड 'ग' आशुलिपिकों को योजना आयोग में तदर्थ आधार पर रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवं 'ख' (आमेलित) के रूप में 30.6.2007 तक नियुक्त करते हैं :-

1. श्री पी. संकर
2. श्रीमती कमला पठनिया
3. श्री सी. एम. सिंह
4. श्री एच. एस. गुजराल
5. श्रीमती शांति सुधा अरोड़ा
6. श्रीमती कुलविंदर कौर
7. श्री रत्न कुमार
8. श्री जे. एल. किशनानी
9. श्री तिलक राज अरोड़ा
10. श्री बी. के. शर्मा
11. श्रीमती एस. पुरुषोत्तम
12. श्रीमती हरविंदर फुलवारिया

2. यह नियुक्ति उपर्युक्त व्यक्तियों को ग्रेड में अनिश्चितकाल तक जारी रहने या नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल करने या सीएसएसएस के आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवं 'ख' (आमेलित) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। ये तदर्थ नियुक्तियां किसी भी समय बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं।

प्रेमप्रकाश, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी 2007

सं. ए-32015/8/2005-प्रशा.-IV (वि.का.)--इस विभाग की दिनांक 24 जुलाई, 2006 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.12.2006 के का. ज्ञा. सं. 5/7/2006-सी.एस.-II के अनुसरण में, राष्ट्रपति, निम्नलिखित निजी सचिवों की विधि और न्याय मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में नियमित रिक्ति के स्थान पर तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्ति की अवधि को दिनांक 30.06.2007 तक या नियमित पदधारी के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं :-

क्रम नाम

सं.

1. श्री ए. जी. कुट्टी
2. श्री विजय कुमार शर्मा
3. श्री राजेन्द्र प्रसाद
4. श्री के. के. कयरात

2. उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति से वे प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में नियमित प्रोन्नति के लिए दावा नहीं कर सकेंगे और न ही उनके द्वारा तदर्थ आधार पर की गई सेवा की गणना ग्रेड में वरिष्ठता अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

वी. रवींद्रन, अवर सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 18 जनवरी 2007

सं. के. 13023/4/2006-यू.एस. II.--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश (i) न्यायविद् श्री वजाहत अली शाह (ii) न्यायविद् श्री आर्येन्द्र कुमार सक्सेना (iii) न्यायविद् श्री राम किशोर गुप्ता (iv) न्यायविद् श्री रवि शंकर झा (v) न्यायविद् श्रीमती मंजूषा नामजोशी और (vi) न्यायविद् श्री श्याम सुन्दर द्विवेदी को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

दिनांक 22 जनवरी 2007

सं. के. 11017/6/2006-यू.एस. II.--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श के उपरान्त, बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री राजेन्द्र मल लोढ़ा को राजस्थान उच्च न्यायालय के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 6 फरवरी, 2007 को या इससे पहले राजस्थान उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश देते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

सं. के. 13020/2/2006-यू.एस.-II.--राष्ट्रपति, जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री बशीर अहमद खान को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

सं. के. 13020/3/2006-यू.एस.-II.--राष्ट्रपति, जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की धारा 100-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री मनसूर अहमद मीर को 31 जनवरी, 2007 से दो वर्ष की अवधि के लिए, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

सं. के. 13022/2/2006-यू. एस.-I.--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री तेक्केडतू रामन पिल्लै रामचंद्रन नायर को, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, श्री अन्टोनी डोमिनिक को अपना उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए केरल उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

दिनांक 23 जनवरी 2007

सं. के. 11019/3/2007-यू. एस.-I.--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री विनोद कुमार बाली के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण, केरल उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम् न्यायाधीश, न्यायविद् श्री कलवमकोडत शिवशंकर पणिकर राधाकृष्णन को दिनांक 24 जनवरी, 2007 से, केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

दिनांक 24 जनवरी 2007

सं. के. 11019/1/2007-यू. एस.-II.--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री सुजीत बर्मन राय के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण, उड़ीसा उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम् न्यायाधीश, न्यायविद् श्री अशोक कुमार गांगुली को दिनांक 28.01.2007 से उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2007

सं. ए-20/जी/2843-प्रशा. I.--राष्ट्रपति, श्री यू. एन. पंजियार, आई.ए.एस. (बिहार : 73) को दिनांक 01 फरवरी, 2007 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक गृह मंत्रालय में सचिव (सीमा प्रबंधन) नियुक्त करते हैं।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2007

सं. ए-20/जी/2634-प्रशा. I.--राष्ट्रपति, श्री पी. वी. भिडे, आई.ए.एस. (आन्ध्र प्रदेश : 73) को दिनांक 02 जनवरी, 2007 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक गृह मंत्रालय में विशेष सचिव नियुक्त करते हैं।

ओ. पी. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 2007

सं. आई-14011/15/2006-आई.पी.एस.-1--संघ लोक सेवा आयोग द्वारा श्री आर. एस. कौल (जन्म तिथि : 01.05.1958) के नाम को मध्य प्रदेश पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति के लिये दिनांक 30.10.2006 को आयोजित वर्ष 2006 की चयन सूची बैठक में, जिसे आयोग ने दिनांक 20.12.2006 को अनुमोदित किया था, दिनांक 08.02.2007 को उनके नाम को अंतिम रूप से शामिल किये जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में द्वितीय परंतुक के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य पुलिस के सदस्य श्री आर. एस. कौल (जन्म तिथि : 01.05.1958) को भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत मध्य प्रदेश संवर्ग प्रदान करते हैं। यह नियुक्ति अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2007

सं. 24012/19/2003-स्था. (ख)--राष्ट्रपति, श्री कमलेश कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी, उत्तर पूर्व रेलवे, लखनऊ को कर्मचारी चयन आयोग के इलाहाबाद स्थित मध्य क्षेत्रीय कार्यालय में 10,000-375-15,200/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 22.01.2007 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो प्रतिनियुक्ति आधार पर उप निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

सुनील के. अरोड़ा, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 फरवरी 2007

सं. 04/पी.बी.-I/2007--राष्ट्रपति, सामान्य संवर्ग भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड-IV के निम्नलिखित अधिकारी को 2 जनवरी, 2007 की मंत्रालय की कार्यालय ज्ञापन सं. क्यू/सी.ए.डी./611/6/2004 के अनुसार उनके नाम के सामने दी गई तारीख से भारतीय विदेश सेवा (ख) के

सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-I एवं III में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं :--

क्रम अधिकारी का नाम	प्रोन्नति की तारीख सं.
---------------------	------------------------

1. श्री पंकज कुमार सिंघल	24.03.2006
--------------------------	------------

2. उपर्युक्त अधिकारी ने 24 मार्च, 2006 से अनुभाग अधिकारी का पद-प्रभार ग्रहण कर लिया है।

जलधि मुखर्जी, प्रशासनिक अधिकारी (पी बी I और III)

कार्यालय : प्रोटोकोल उप-प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2007

सं. डी-III/सी.एफ.-40/2006--भारत के राष्ट्रपति ने श्री विजय शंकर को चेन्नई में स्पेन के मानद कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री विजय शंकर के कौंसली क्षेत्राधिकार में होगा : चेन्नई जिला के समस्त प्रदेश का कौंसली क्षेत्राधिकार।

शाम के मुडगिल, प्रोटोकोल उप-प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2007

सं. ए-12011/2/2006-प्रशा. 2--राजस्व विभाग के दिनांक 13.10.2006 के का.आ.सं.-215/2006 (फा.सं.ए. 22011/8/2006-प्रशा. (2) के अनुसरण में और दिनांक 22.01.2007 के का.आ.सं.-31/2007 (फा.सं.सी.-50/186/2006-प्रशा.2) के द्वारा श्री अमनदीप सिंह, आईआरएस (सीएंडसीई : 97) को अपने संवर्ग में संयुक्त आयुक्त (ग्रेड-IV) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, के गेड में प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान किए जाने के फलस्वरूप राष्ट्रपति, उन्हें वित्त राज्यमंत्री (व्यय, बैंकिंग व बीमा) (श्री पी.के. बंसल) के वैयक्तिक स्टाफ में उसी तिथि से अर्थात् 13.10.2006 (पूर्वाह्न) से 12,000-375-16,500/-रु. के वेतनमान में विशेष कार्याधिकारी नियुक्त करते हैं।

2. डा. अमनदीप सिंह की नियुक्ति श्री पी.के. बंसल, वित्त राज्यमंत्री (व्यय, बैंकिंग व बीमा) की कार्यावधि के सहविस्तारी आधार पर या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगी।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में उसी पद पर 30.06.2007 तक 6 माह की आगे की अवधि के लिए अथवा नियमित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की तदर्थ प्रोन्नति से उन्हें नियमित नियुक्ति या सीएसएसएस के विरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड में अनिश्चित काल के लिए बने रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। उनके द्वारा तदर्थ आधार पर की गई सेवा की गणना वरिष्ठता निर्धारण या अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए पात्रता हेतु नहीं की जाएगी और चयन सूची के उम्मीदवार उपलब्ध होने पर उन्हें प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 फरवरी 2007

सं. ए-12011/15/03-प्रशा.1ए-- इस विभाग की दिनांक 13 जनवरी की अधिसूचना सं. ए.12011/15/03-प्रशा.1 के क्रम में श्री वी. प्रकाश की वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 10,000-325-15,200/-रुपए के वेतनमान में उपनिदेशक (बजट तथा लेखा) के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि 10.01.2007 से 09.07.2007 तक छह माह की अवधि के लिए आगे बढ़ाई जाती है।

2. यह कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 6 फरवरी, 2007 के यू.ओ. सं. सी-173/सी.आर./07-स्थापना (डी) के तहत प्रदत्त सहमति से जारी किया जाता है।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

दिनांक 15 फरवरी 2007

सं. ए.19012/15/07-प्रशा.1ए--राष्ट्रपति कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री वी.के. मान को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 12 फरवरी, 2007 से एक वर्ष की अवधि या नियमित व्यवस्था होने तक जो भी पहले हो, 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में तदर्थ आधार पर आर्थिकी अधिकारी (समूह "ख", राजपत्रित) नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 2007

सं. ए-12026/5/-2005 प्रशा.1--इसी विभाग की दिनांक 9 दिसम्बर, 2005 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री अतनु चक्रवर्ती, आईएएस (गुज: 1985) की 18,400-500-22,400/- रु. के वेतनमान में दिनांक 14.01.2007 से 24.02.2007 अथवा उनके अगले अधिकारी के ज्वाइन करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में संयुक्त सचिव (का.) के रूप में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि को और आगे बढ़ाते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

सं. ए.12011/17/2006-प्रशा.2--राष्ट्रपति, इस विभाग की 2 नवम्बर, 2006 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में वित्त मंत्रालय की सीएसएसएस संवर्ग की वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव श्रीमती जयंती श्रीनिवासन की नियुक्ति

नई दिल्ली, दिनांक 13 फरवरी 2007

सं. ए-22015/1/2004-प्रशा.1/2007--राष्ट्रपति, सुश्री परमा सेन, आई ए एंड ए एस (1994) को दिनांक 22 जनवरी, 2007 के पूर्वाह्न से केंद्र में प्रतिनियुक्ति की उनकी बकाया अवधि 17.7.2010 तक अथवा अगले आदेशों तक, सेटलस्टफिंग स्कीम के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में उप सचिव ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

बी.एस. समकरिया, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 2007

सं. 2/2007(ए-12022/1/2006-स्था. I)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 जनवरी, 2007 के पत्र संख्या 20.02.2007 ईओ (एसएम-1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में अपर सचिव श्री क्रिस्टी एल, फेर्नांडेज़, आईएएस (गुजराज: 73) को दिनांक 2 जनवरी, 2007 के पूर्वाह्न से, अगले आदेशों के होने तक उनके द्वारा वर्तमान में धारित पद का अस्थाई रूप से उन्नयन करते हुए सचिव के रैंक एवं वेतन में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव (स्वस्थाने) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

अनुराग सक्सेना, निदेशक

सं. 3/2007(ए-12022/1/2006-स्था. I)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 जनवरी, 2007 के पत्र संख्या 20.02.2007 ईओ (एसएम-1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार श्रीमती आशा स्वरूप, आईएएस (हि.प्र.: 73) को दिनांक 2 जनवरी, 2007 के पूर्वाह्न से, अगले आदेशों के होने तक उनके द्वारा वर्तमान में धारित पद का अस्थाई रूप से उन्नयन करते हुए सचिव के रैंक एवं वेतन में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव (स्वस्थाने) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

अनुराग सक्सेना, निदेशक

दिनांक 23 जनवरी 2007

सं. 4/2007(ए-32012/1/2004-स्था. I)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 दिसम्बर, 2006 के आदेश सं. 4.2.2006-सीएस. I के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अवर सचिव श्री रविन्दर बी. जोशी, को 19 जनवरी, 2007 के पूर्वाह्न से वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में तदर्थ आधार पर चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त किया जाता है।

2 उपर्युक्त अधिकारी की तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित के अधीन होगी:--

- (i) तदर्थ पदोन्नति से उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने

अथवा चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

- (ii) इस तदर्थ नियुक्ति को कोई कारण बताए बिना किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

अनुराग सक्सेना, निदेशक

दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. 5/2007(ए-12023/1/2006-ई-1)--राष्ट्रपति द्वारा श्री ओम प्रकाश को दिनांक 31 जनवरी, 2007 के पूर्वाह्न से आरंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में 6500-200-10500/- रुपये के वेतनमान में नयाचार अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाता है।

अनुराग सक्सेना, निदेशक

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 09 फरवरी 2007

सं. ए-19011/182/2004-प्रशासन--लोक उद्यम विभाग में अल्पाधि अनुबंध समाप्त होने के परिणामस्वरूप श्री संजय कुमार, उपनिदेशक को दिनांक 09.02.2007 (अपराह्न) से अगले निदेशों के लिए उनके मूल संगठन, भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

जी.एस. बसराँ, उप सचिव

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 फरवरी 2007

सं. मविवि/11/13/97-स्थापना--राष्ट्रपति, समुद्री संजीव संसाधन और पारिस्थितिकी केन्द्र (सीएमएलआरई), कोच्चि, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में कार्यरत श्री के.ए. रंजन, फिशिंग मास्टर (कनिष्ठ) को 1 जनवरी, 2007 के पूर्वाह्न से स्वेच्छिक रूप से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

कृष्ण कुमार, अवर सचिव

सं. मविवि/18/03/2006-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री नारायणन सरवनाने, वैज्ञानिक 'ग' को 10,000-325-15,200/- रुपये (समूह 'क' राजपत्रित वैज्ञानिक) के वेतनमान में समुद्री संजीव संसाधन और पारिस्थितिकी केन्द्र (सीएमएलआरई), कोच्चि, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, में 24 नवम्बर, 2006 से सीधी भर्ती के आधार पर अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

2. श्री नारायणन सरवनाने 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में 10,000/- रुपये का न्यूनतम वेतन आहरित करेंगे तथा यदि बदली नहीं जाती, तो उन्हें दिनांक 01.11.2007 से अगली वेतन वृद्धि मिलेगी।

कृष्ण कुमार, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 जनवरी 2007

सं. 17013/6/2006-भा.व.से.-II--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1966 के नियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, तत्काल प्रभाव से हिमाचल प्रदेश राज्य वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को वर्ष 2006 की चयन सूची के आधार पर भारतीय वन सेवा में नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत भारतीय वन सेवा का हिमाचल प्रदेश संवर्ग आवंटित करते हैं।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि
1.	श्री बंसी लाल नेगी	10.4.1961

2. अधिकारी की पदोन्नति माननीय राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लंबित ओ ए सं. 502/2000 के अंतिम परिणाम की शर्त पर होगी।

अशोक कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 फरवरी 2006

सं. ए-11014/2/2004-पी-II--श्री भीम सिंह, सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कस्टम हाउस को पर्यावरण और राज्य मंत्री कार्यालय में अपर निजी सचिव के रूप में 10,000-15,200/- रुपये के वेतनमान में 2.2.2007 के पूर्वाह्न से एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

2. श्री भीम सिंह की नियुक्ति सह-समाप्य आधार पर होगी और यह पर्यावरण और राज्य मंत्री की इच्छा पर है।

3. वर्ष 2006-07 (गैर योजना) हेतु उनका वेतन मांग संख्या 29-मुख्यशीर्ष 3451.00.090.290001-के तहत आहरित किया जाएगा।

कबीन्द्र जोशी, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 15 फरवरी 2007

सं. ए-12025/180/2004-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोग सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. हरविन्द्र कौर को 12 अक्टूबर, 2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. हरविन्द्र कौर को लेडी हार्डिंग मेडिकल

कालेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डा. हरविन्द्र कौर दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगी।

श्रीमती माया प्रकाश, अवर सचिव

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 जनवरी 2007

सं. ए-32013/10/2004-स्थापना-I--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 के आदेश संख्या 5/8/2006-सीएस-I के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में तदर्थ आधार पर पदोन्नति हो जाने के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में अवर सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. श्री मोहम्मद सलीम | 22.12.2006 (पूर्वाह्न) |
| 2. श्रीमती मीनू बतरा | 09.01.2007 (पूर्वाह्न) |

तदर्थ पदोन्नति से इस ग्रेड में अनिश्चित काल के लिए बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

पी. जी. कलाधरन, अवर सचिव

दिनांक 6 फरवरी 2007

सं. ए-32013/2/2005-स्थापना-I--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.12.2006 के आदेश संख्या 4/02/2006 सीएस-I के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) के पद पर तदर्थ आधार पर प्रोन्नति हो जाने के परिणामस्वरूप श्री मोहन सिंह को 01.02.2007 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं। तदर्थ प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :--

(i) तदर्थ प्रोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(ii) बिना कोई कारण बताए तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

2. प्रोन्नति पर उनको दिनांक 1.2.2007 से स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में तैनात किया जाता है।

पी. जी. कलाधरन, अवर सचिव

(आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2007

सं. ए-12022/1/99-भा.चि.प. (स्था.-II)--राष्ट्रपति द्वारा श्री संजीव कुमार चड्ढा, भारतीय वन सेवा (उड़ीसा : 89) से संबंधित अधिकारी को 8 जनवरी, 2007 के अपराह्न से 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

अंशुमन शर्मा, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2007

सं. 27-2701/2007-स्था.-I--राष्ट्रपति कृषि एवं सहकारिता विभाग में नियमित निजी सचिव श्री सिद्धार्थ सिंह को 12.1.2007 की पूर्वाह्न से माननीय कृषि राज्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया) के वैयक्तिक स्टाफ में सहायक निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री सिंह की सहायक निजी सचिव के पद पर नियुक्ति माननीय कृषि राज्य मंत्री के कार्यकाल तक रहेगी।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 8 फरवरी 2007

सं. 12025/1/2003-स्था.-II--राष्ट्रपति डॉ. सुशान्त कुमार सरकार को कृषि एवं सहकारिता विभाग में 23 जनवरी, 2007 के पूर्वाह्न से 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में सीधी भर्ती के आधार पर उपायुक्त (बागवानी) के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2007

सं. ए-19012/2/2007-ई.ए.-राष्ट्रपति भारतीय आर्थिक सेवा (आई.ई.एस.) के जूनियर टाइम स्केल (जे.टी.एस.) अधिकारी, श्री अश्विनी कुमार का दिनांक 23 अक्टूबर, 2006 के पूर्वाह्न से 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में कृषि एवं सहकारिता विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

राज कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2007

सं. 4-9/2006-विस्तार--राष्ट्रपति श्री पी. एन. गाबा, सहायक विस्तार अधिकारी को विस्तार निदेशालय में 8,000-275-13,500/- रुपये के

वेतनमान में विस्तार अधिकारी, सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह क राजपत्रित के पद पर 24 जनवरी, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

रानी तलारेजा, अवर सचिव

कृषि लागत और मूल्य आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी 2007

सं. 3-2/2007-प्रशा.--कृषि लागत और मूल्य आयोग में श्री राजेश कुमार शर्मा ने आर्थिक अधिकारी के पद पर उनके चयन के परिणामस्वरूप (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अलिपिक वर्गीय) 09 फरवरी, 2007 के पूर्वाह्न से 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में आर्थिक अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण किया है।

आर. एस. ठाकराण, निदेशक

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण

(पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग)

मुम्बई-400001, दिनांक 20 नवम्बर 2006

सं. 2-167/99 स्था.-I--अधोहस्ताक्षरी नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में श्री जी. नागराजन, क. मात्स्यिकी वैज्ञानिक ग्रेड-II, श्री ए. के. मलिक, क. मात्स्यिकी वैज्ञानिक ग्रेड-II, श्री एन. जगन्नाथ, क. मात्स्यिकी वैज्ञानिक ग्रेड-II, श्री एस. जी. पटवारी, क. मात्स्यिकी वैज्ञानिक ग्रेड-II तथा श्री पी. तमिलरसन, क. मात्स्यिकी वैज्ञानिक ग्रेड-II को क. मात्स्यिकी वैज्ञानिक ग्रेड-I के पद पर (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप बी. राजपत्रित-अलिपिकवर्गीय) रुपये 7,500-250-12,000/- वेतनमान में नियमित आधार पर 10.01.2006 अपराह्न से भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण में पदोन्नत करते हैं।

वे 10.01.2006 से दो वर्षों की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन रहेंगे।

डॉ. वी. एस. सोमवंशी, महानिदेशक

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 2006

सं. ए-19011/10/2006-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय) के दिनांक 05.10.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/34/2006-ई.ओ. (एम एम-I) के अनुसरण में, सुश्री रूपा श्रीनिवासन, आई.आर.ए.एस. (1989) ने 10 नवम्बर, 2006 (अपराह्न) से पांच वर्ष की अवधि अर्थात् 9 नवम्बर, 2011 तक के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, संस्कृति मंत्रालय में निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

ए. मुरुगैयन, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 7 फरवरी 2007

सं. 17014/32/97-एससीडी-IV--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 52(V) के अनुसरण में, श्री राकेश मित्तल, सहायक महानिदेशक, रक्षा सम्पदा को श्री बी. ए. दयालन के स्थान पर शासकीय निदेशक के रूप में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मंडल में छावनी बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में तत्काल प्रभाव से तथा अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

नीलाम्बुज शरण, उप सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी 2007

सं. 11036/9/2006-पी. सी. एंड वी.--इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 11036/9/2006-पी.सी. एंड वी. दिनांक 7 नवम्बर, 2006 के अधिक्रमण में तथा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के निबंधनों के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ. बचिन्द्र सिंह को एतद्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के प्रयोजन से जनजातीय कार्य मंत्रालय का अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है।

प्रदीप कुमार, अवर सचिव

सं. 11036/9/2006-पी. सी. एंड वी.--इस मंत्रालय की दिनांक 22.09.2006 की अधिसूचना संख्या 11036/9/2006-पी.सी. एंड वी. के अधिक्रमण में तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय के निम्नांकित अधिकारियों को एतद्वारा उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित विशेष विषयों के संबंध में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों के रूप में पदनामित किया जाता है :--

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या	विषय वस्तु
1	2	3	4	5
	सुश्री/श्री			
1.	जूथिका पाटणकर	निदेशक (शिक्षा)	23073176	1. अनुच्छेद 275(1) 2. छात्रों के छात्रावास और छात्राओं के छात्रावास 3. आश्रम विद्यालय 4. व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (एनजीओ को छोड़कर) 5. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति 6. प्रतिभा उन्नयन 7. राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना 8. राजीव गांधी अध्येतावृत्ति योजना 9. अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम) 10. सतर्कता
				विषय : शिक्षा
2.	बी. एस. खर्मापलांग	निदेशक (अनुसंधान एवं मीडिया प्रभाग)	26182428	1. जनजातीय अनुसंधान संस्थानों से संबंधित सभी मामले 2. फिल्म/मीडिया/प्रचार/जनजातीय जागरण 3. जनजातियों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान योजना 4. आईएलओ कन्वेंशन आदि से संबंधित सभी नीतिगत विषय इत्यादि 5. अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति आयोग-अवशिष्ट कार्य 6. राष्ट्रीय जनजातीय कार्य संस्थान (एनआईटीए) इत्यादि
3.	भरत लाल	निदेशक (राज्य अनुदान प्रभाग)	23387444	1. जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता

1	2	3	4	5
	सुश्री/श्री			
				2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम/एसटीएफडीसी 3. अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं 4. सूचना प्रौद्योगिकी 5. राज्य/केन्द्रीय मंत्रालय-वार स्थिति/प्रोफाइल के समेकन सहित टीएसपी से संबंधित कार्य
4.	अनुराग बाजपेई	उपसचिव (गैर-सरकारी संगठन प्रभाग)	23070508	1. गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान योजनाओं से संबंधित सभी मामले 2. व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (केवल गैर सरकारी संगठन) 3. आदिम जनजातीय समूहों से संबंधित योजनाएं 4. कोचिंग एवं सम्बद्ध योजनाएं 5. पुनर्वास एवं स्थापना 6. सिंचाई परियोजनाएं एवं ऊर्जा परियोजनाएं, जिसमें सरदार सरोवर परियोजना शामिल है 7. जनजातीय नीति विषय : कुपोषण सहित स्वास्थ्य, भोजन
5.	सी. गोसकन	उप सचिव (सी पी एंड आर प्रभाग)	26182814	1. ट्राइफेड तथा लघु वन उत्पाद तथा ट्राइफेड से संबंधित सभी मामले 2. मूल्य समर्थन योजना 3. ट्राइफेड योजना में निवेश 4. एसटीडीसीसी/एफडीसी/एलएएमपीएस को अनुदान; 5. जनजातियों से संबंधित भूमि का अधिग्रहण 6. भू-अन्य संक्रमण/हस्तांतरण विनियमन; 7. ऋण देना/ऋण राहत; 8. जनजातीय क्षेत्रों में उत्पाद शुल्क नीति; 9. वार्षिक सामाजिक प्रतिरक्षा/कल्याण/मेले; 10. योजना आयोग की स्थायी समिति; 11. राष्ट्रीय न्यूनतम साक्षा कार्यक्रम; 12. एनएसी; 13. जनजातीय कार्य पर मंत्रिमंडल समिति विषय : ग्रामीण विकास (भूमि)
6.	एस. के. गुप्ता	उप सचिव (आंतरिक वित्त प्रभाग)	23385487	1. पंचवर्षीय योजना, शून्य आधारित बजट, गैर-योजना सहित वार्षिक योजना, अर्धवार्षिक प्रगति आदि। 2. वित्त आयोग संबंधी मामले। 3. वित्त (आंतरिक वित्त प्रभाग)। 4. बजट संबंधी सभी मामले। 5. अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें। 6. निष्पादन बजट। 7. परिणाम बजट।

1	2	3	4	5
	सुश्री/श्री			
				<p>8. मासिक व्यय सहित मंत्रालय का सामान्य वित्तीय निष्पादन।</p> <p>9. अव्ययित शेष का राज्यवार/योजनावार विवरण तैयार करने सहित व्यय की मासिक समीक्षा तथा एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत अव्ययित शेष राशियों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट।</p> <p>10. पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में योजनावार व्यय का संकलन।</p> <p>11. लेखा परीक्षा संबंधी कार्य।</p> <p>12. परिणाम का समेकन एवं प्रबोधन</p> <p>विषय : बजट, योजना आयोग के मामले/मासिक व्यय सहित मंत्रालय का सामान्य वित्तीय निष्पादन।</p>
7.	डॉ. सी. वी. धर्मावर	उप सचिव (स्था. सामान्य, प्रशा. एवं रोकड़ प्रभाग)	23073706	<p>(क) मंत्रालय के स्थापना-मामले</p> <p>1. नियुक्ति प्रोन्नति, कार्यमुक्ति इत्यादि जैसे सभी प्रकार के स्थापना-विषय</p> <p>2. सेवानिवृत्ति एवं पेंशन संबंधी लाभ के मामले,</p> <p>3. कर्मचारियों के सेवा विषय-यथा वेतन निर्धारण, वेतन में क्रमवार वृद्धि, वार्षिक वृद्धि इत्यादि</p> <p>4. अग्रिम संबंधी मामले जैसे गृह निर्माण अग्रिम, मोटर कार अग्रिम, मोटर साइकिल अग्रिम, छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम</p> <p>5. चिकित्सा प्रतिपूर्ति, चिकित्सा हेतु अनुमति;</p> <p>6. केन्द्रीय कर्मचारी योजना तथा संवर्ग-बाह्य पदों पर भर्ती करना</p> <p>7. संवर्ग-बाह्य पदों हेतु नियुक्ति नियम</p> <p>8. सेवा अभिलेखों का अनुरक्षण</p> <p>9. एसीपी मामले;</p> <p>10. एसीसी मामले</p> <p>11. एसीआर का अनुरक्षण</p> <p>12. प्रशिक्षण परिपत्र</p> <p>13. आचार-संहिता के अधीन आने वाले मामले</p> <p>14. मंत्री जी के स्टाफ से संबंधित स्थापना मामले</p> <p>15. मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित कार्य</p> <p>16. स्थायी समितियों सहित संसदीय मामले</p> <p>17. ओ एंड एम/आईडब्ल्यूएसयू सहित मंत्रालय का समन्वय कार्य, राजभाषा अनुभाग, सूचना का अधिकार अधिनियम, जनजातीय त्यौहार और गणतंत्र दिवस, मंत्री के विवेकाधिकार निधि।</p> <p>(ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित प्रशासनिक मामले</p>

1	2	3	4	5
	सुश्री/श्री			<p>(ग) सामान्य प्रशासन, केन्द्रीय रजिस्ट्री, इकाई तथा नकदी से संबंधित मामले जैसे कि :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सामान का प्रापण एवं वितरण (स्टेशनरी एवं कार्यालय में उपभोग्य वस्तुएं); 2. इलेक्ट्रॉनिक कार्यालयीन उपकरण (फैक्स/फोटो कापियर/रिजो/कम्प्यूटर) का प्रापण एवं वितरण; 3. सरकारी आवासों का नवीकरण 4. कर्मचारियों हेतु सरकारी आवास 5. स्टाफ कार सहित सभी कार्यालयीन उपकरणों का अनुरक्षण 6. टेलीफोन बिलों का भुगतान (एमटीएनएल, मोबाइल, वीसीसी कार्ड) 7. पहचान-पत्र कार्ड/एयरपोर्ट प्रवेश कार्ड/सीजीएचएस कार्ड/कार पार्किंग पास इत्यादि जारी करना; 8. ए.सी. एवं कूलर की खरीद एवं उनका अनुरक्षण 9. सफाई हेतु श्रमिकों को भाड़े पर लेना 10. फर्नीचर की खरीद तथा वितरण 11. इंटरकॉम सुविधा की व्यवस्था 12. स्टेशनरी, फाइल, पत्र-शीर्ष, यात्रा कार्ड (विजिटिंग कार्ड) की छपाई 13. सुरक्षित पेयजल का प्रावधान 14. पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों की खरीद तथा उनके बिल का भुगतान 15. रिजोग्राफ कार्य 16. सामान्य अनुभाग से संबंधित अन्य सभी मामले। 17. रोकड़ अनुभाग से संबंधित मामले 18. केन्द्रीय रजिस्ट्री 19. सामान्य प्रशासन से मिलते-जुलते अन्य शेष मामले <p>विषय : पर्यावरण एवं वन</p>
8.	सुश्री संतोष	उपसचिव (एमईआर प्रभाग)	23073176	<ol style="list-style-type: none"> 1. जनगणना विषय, जनजातीय विशिष्ट सांख्यिकीय डाटा/जनजातियों से संबंधित सांख्यिकी का संकलन 2. सभी योजनाओं तथा सार विषयों/मुद्दों का अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन 3. एमएनपी सहित 20 सूत्री कार्यक्रम के बिंदु 11(ख) 4. अनुसंधान परियोजनाओं, संगोष्ठियों, प्रकाशनों, अध्येतावृत्तियों हेतु अनुदान, जिसमें अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन शीर्ष के तहत अनुदान शामिल हैं 5. महिलोन्मुखी बजट 6. केन्द्रीय/राज्य/पीएसयू में वरिष्ठ पदों हेतु आरक्षण, शिकायत इत्यादि तथा उससे संबंधित विषय

1	2	3	4	5
9.	डॉ. एन. के. घटक	संयुक्त निदेशक (सी एंड एलएम प्रभाग)	23073176	<p>7. पीसीआर अधिनियम/अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा अधिनियम/ अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार</p> <p>8. सभी राज्यों/संघ शासित प्रशासनों के संबंध में प्रोफाइल/स्टेट/ब्रीफ नोट</p> <p>9. नागरिक चार्टर से संबंधित विषय</p> <p>1. अनुसूचित जनजातियों को सूची में शामिल करना/हटाना एवं उससे संबंधित न्यायालय के मामले</p> <p>2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग-प्रशासनिक कार्य को छोड़कर सभी कार्य</p> <p>3. सभी सांवैधानिक मामले</p> <p>4. जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों का सीमांकन, जिसमें आईटीडीपी/ माडा/कलस्टर शामिल हल</p> <p>5. राज्यपाल की रिपोर्ट तथा जनजातीय परामर्शदात्री परिषदों सहित पांचवीं अनुसूची से संबंधित सभी विषय</p> <p>6. छठी अनुसूची से संबंधित मामले</p> <p>7. पंचायती राज तथा अन्य स्थानीय संस्थानों से संबंधित सभी मामले</p> <p>8. पीटीजी की घोषणा आदि से संबंधित सभी नीतिगत मामले (पीटीजी की योजनाओं को छोड़कर)।</p>

टिप्पणी : (1) क्र. सं. 2, 5, और 8 में उल्लिखित सीपीआईओ का कार्यालय अगस्त क्रांति भवन, आर. के. पुरम्, नई दिल्ली में है।

(2) अपीलीय प्राधिकारी-डॉ. बचितर सिंह, संयुक्त सचिव, दूरभाष-23073817।

प्रदीप कुमार, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक नवम्बर 2006

विषय : सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2004 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" की नियुक्ति।

सं. 7-03/2005-एसईए-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2004 के आधार पर सुश्री टीना सोनी (रैंक नं. 195) (अन्य पिछड़ा वर्ग) को भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" के कनिष्ठ समयमान में 8,000-275-13,500/- रु. के वेतनमान में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं।

(i) यह पद स्थायी है किन्तु वह नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेगी जिसे सक्षम अधिकारी के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथा स्थिति या तो सेवा मुक्त कर दिया जाएगा या अपने उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं।

(ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उसके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इस संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अधधीन होगी।

(iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि वे जीवित पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह करती हैं तो यह नियुक्ति तत्संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अधधीन होगी।

(iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एएलटीडीसी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अधधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

(v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।

(vi) उक्त नियुक्ति के तहत कर्मचारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

(vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों द्वारा अभिशसित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने के अध्यक्षीन है।

3. जिस अभ्यर्थी ने बुनियादी पाठ्यक्रम में भाग लिया है उसे इस पाठ्यक्रम में दाखिला लेने की तिथि से सेवारत माना जाएगा।

4. कृपया पत्र की पावती भेजें।

दिपंकर महतो, सहायक महानिदेशक (एसईए)

सेवा में,

सुश्री टीना सोनी,
मार्फत पाठ्यक्रम समन्वयक,
एनआईएफएम, फरीदाबाद
हरियाणा।

विषय : सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2005 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" की नियुक्ति।

सं. 7-03/2006-एसईए-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2005 के आधार पर सुश्री सारथा जी. (रैंक नं. 164) (सामान्य वर्ग) को भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" के कनिष्ठ समयमान में 8,000-275-13,500/- रु. के वेतनमान में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं।

(i) यह पद स्थायी है किन्तु वह नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगी जिसे सक्षम अधिकारी के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथा स्थिति या तो सेवा मुक्त कर दिया जाएगा या अपने उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं।

(ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उसके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इस संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यक्षीन होगी।

(iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि वे जीवित पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह करती हैं तो यह नियुक्ति तत्संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यक्षीन होगी।

(iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एएलटीडीसी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के

अध्यक्षीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

(v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।

(vi) उक्त नियुक्ति के तहत कर्मचारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

(vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों द्वारा अभिशसित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने के अध्यक्षीन है।

3. जिस अभ्यर्थी ने बुनियादी पाठ्यक्रम में भाग लिया है उसे इस पाठ्यक्रम में दाखिला लेने की तिथि से सेवारत माना जाएगा।

4. कृपया पत्र की पावती भेजें।

दिपंकर महतो, सहायक महानिदेशक (एसईए)

सेवा में,

सुश्री सारथा जी.,
मार्फत निदेशक,
एलबीएसएनएए, मैसूर

विषय : सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2005 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" की नियुक्ति।

सं. 7-03/2006-एसईए-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2005 के आधार पर श्री मनी राम शर्मा (रैंक नं. 378) (विकलांग) (सामान्य वर्ग) को भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" के कनिष्ठ समयमान में 8,000-275-13,500/- रु. के वेतनमान में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं।

(i) यह पद स्थायी है किन्तु वह नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगी जिसे सक्षम अधिकारी के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथा स्थिति या तो सेवा मुक्त कर दिया जाएगा या अपने उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं।

(ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उसके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इस संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यक्षीन होगी।

(iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि वे जीवित पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह करती हैं तो यह नियुक्ति तत्संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अधधीन होगी।

(iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एएलटीटीसी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अधधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

(v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।

(vi) उक्त नियुक्ति के तहत कर्मचारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

(vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों द्वारा अभिशसित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने के अधधीन है।

3. जिस अभ्यर्थी ने बुनियादी पाठ्यक्रम में भाग लिया है उसे इस पाठ्यक्रम में दाखिला लेने की तिथि से सेवारत माना जाएगा।

4. कृपया पत्र की पावती भेजें।

दिपंकर महतो, सहायक महानिदेशक (एसईए)

सेवा में,

श्री मनी राम शर्मा,
गांव बदान गढ़ी,
पोस्ट-अरवईगढ़,
तहसील-नादबाई,
जिला-भरतपुर
राजस्थान

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 फरवरी 2007

सं. 2 (6)/2006-का.-I--राष्ट्रपति जी ने डॉ. एन. विजयादित्य को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 17 के अंतर्गत 22,400-525-24,500/- रुपये के वेतनमान में तथा नियमानुसार देय भत्तों सहित दिनांक 09.02.2007 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 65 वर्ष की आयु होने तक, अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक नियुक्त किया है।

अरुणा नायर, निदेशक

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2007

सं. 2000/ई. (जी. आर.) 11/7/30--राष्ट्रपति जी डॉ. गोपालकृष्णन को 23.7.2004 से भारतीय रेल चिकित्सा सेवा में वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

देबाशीष मजूमदार
संयुक्त निदेशक स्था. (राज.)

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्रालय

(पोत-परिवहन विभाग)

सं. एल.एच.-21013/1/2004-एस.एल.--राष्ट्रपति, श्री ए. यशुदासन, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) को दीप-स्तंभ और दीप-पोत महानिदेशालय में 09 अक्टूबर, 2006 पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी 2007

सं. 04/07 फा. सं. 2/3/07-प्रशा. दो--राष्ट्रपति, श्री अनिल राजदान, भा. प्र. से. (हरियाणा : 1973) को, 1 फरवरी, 2007 के पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक, विद्युत मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2007

सं. 46/10/2005-आर. एंड आर.--विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 113(3) के संदर्भ में, राष्ट्रपति सुश्री न्यायमूर्ति मन्जु गोयल को 25 जनवरी, 2007 (अपराह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, विद्युत अपील अधिकरण का न्यायिक सदस्य नियुक्त करते हैं।

2. विद्युत अपील अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में न्यायमूर्ति मन्जु गोयल की नियुक्ति विद्युत अपील अधिकरण (अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तों) नियमावली, 2004 द्वारा शासित होगी।

आलोक कुमार, निदेशक

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 14th February 2007

No. RS/3(viii)/2007/17-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Manjul Kumar Pandey, Junior Parliamentary Interpreter in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Parliamentary Interpreter in that Secretariat, with effect from the forenoon of the 12th February, 2007 until further orders.

C. B. RAI, Under Secy.

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 8th February 2007

No. A-19013/01/2007-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Rahul Dua, I DEF ESTATE S (1983) as Director (Security) in the Cabinet Secretariat with effect from the forenoon of 1st February, 2007 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

R. KRISHNAMURTHY, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 6th February 2007

No. A-12025/01/2005-Admn.II.—The President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar Sharma, Assistant Director, Ministry of Statistics & Programme Implementation, New Delhi as Senior Research Officer in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/-, on purely adhoc deputation basis, for a period of one year with effect from 02.02.2007 (AN), or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

R. K. PARMAR, Under Secy.

New Delhi-110001, the 7th January 2007

No. A-32014/2/2006-Admn. III.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/8/2006-CS. II dated 31.05.2006, 20.07.2006, 03.11.2006 and 22.12.2006, the President is pleased to extend the period of appointment of the following Stenographer Grade 'C' of CSSS Cadre as Steno Grade 'A' & 'B' (Merged) on adhoc basis in Planning Commission in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- upto 30.06.2007 :—

Sl. No.	Name
1	2
1.	Shri P Sankar
2.	Smt Kamla Pathania
3.	Shri C. M. Singh
4.	Shri H. S. Gujral
5.	Smt. Shanti Sudha Arora
6.	Smt. Kulvinder Kaur

1 2

- | | |
|-----|--------------------------|
| 7. | Shri Rattan Kumar |
| 8. | Shri J. L. Kishnani |
| 9. | Shri Tilak Raj Arora |
| 10. | Shri B. K. Sharma |
| 11. | Smt. S. Purushothaman |
| 12. | Smt. Harvinder Phulwaria |

2. The appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Stenographer Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS. Adhoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

PREM PARKASH, Under Secy.

MINISTRY OF LAW & JUSTICE**(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)**

New Delhi, the 5th January 2007

No. A-32015/8/2005-Admn. IV (LA).—In continuation of this Department's Notification of even number dated 24th July, 2006 and in pursuance of Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/7/2006-CS-II dated 14.12.2006, the President is pleased to extend appointment of the following Private Secretaries as Principal Private Secretary on adhoc basis against regular vacancy in Department of Legal Affairs of CSSS cadre of the Ministry of Law & Justice for a period up to 30.06.2007 or till a regular incumbent becomes available, whichever is earlier:—

Sl. No.	Name
1.	Shri A. G. Kuty
2.	Shri Vijay Kr. Sharma
3.	Shri Rajinder Prasad
4.	Shri K. K. Kayarat

2. The above said ad-hoc appointment will not bestow on them any claim for regular promotion to the grade of PPS nor will the service rendered by them on ad-hoc basis will count for the purpose of seniority in the grade or for their promotion to the next higher grade.

V. RAVINDRAN, Under Secy.

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 18th January 2007

No. K-13023/4/2006-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Justice Shri Wajahat Ali Shah, (ii) Justice Shri Aryendra Kumar Saxena, (iii) Justice Shri Ram Kishore Gupta, (iv) Justice Shri Ravi Shanker Jha, (v) Justice Smt. Manjusha Namjoshi, and (vi) Justice Shri Shyam Sunder Dwivedi, Additional Judges of the

Madhya Pradesh High Court, to be Judges of the Madhya Pradesh High Court, in that order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

The 22nd January 2007

No. K-11017/6/2006-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Justice Shri Rajendra Mal Lodha, Judge of the Bombay High Court as a Judge of the Rajasthan High Court and to direct him to assume charge of his office in the Rajasthan High Court on or before 6th February, 2007.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

No. K-13020/2/2006-US.II.—In exercise of the powers conferred by section 95 of the Constitution of Jammu & Kashmir, the President is pleased to appoint Justice Shri Bashir Ahmed Khan, Judge of the Jammu and Kashmir High Court, to be the Chief Justice of the Jammu and Kashmir High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

No. K-13020/3/2006-US.II.—In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 100-A of the Constitution of Jammu & Kashmir, the President is pleased to appoint Shri Mansoor Ahmad Mir, to be an Additional Judge of the Jammu and Kashmir High Court for a period of two years with effect from January 31, 2007.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

No. K-13022/2/2006-US.I.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Thekkedathu Raman Pillai Ramachandran Nair, to be a Judge of the Kerala High Court, with effect from the date he assumes charge of his office.

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Antony Dominic, to be an Additional Judge of the Kerala High Court for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

The 23rd January 2007

No. K-11019/3/2007-US.I.—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution India, the

President is pleased to appoint Shri Justice Kalavamkodath Sivasankara Panicker Radhakrishnan, seniormost Judge of the Kerala High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from 24th January, 2007 consequent upon the retirement of Justice Shri Vinod Kumar Bali, Chief Justice of the Kerala High Court.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

The 24th January 2007

No. K-11019/1/2007-US.II.—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar Ganguly, seniormost Judge of the Orissa High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from 28.01.2007 consequent upon the retirement of Shri Justice Sujit Barman Roy, Chief Justice of Orissa High Court.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 12th February 2007

No. A-20/G/2843-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri U. N. Panjiar, IAS (BH : 73), as Secretary (Border Management) in the Ministry of Home Affairs, with effect from 1st February, 2007 (forenoon), until further orders.

J. B. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 12th February 2007

No. A-20/G/2634-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri P. V. Bhide, IAS (AP : 73), as Special Secretary in the Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of 2nd January, 2007 until further orders.

O. P. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 20th February 2007

No. I-14011/15/2006-IPS.I.—Consequent upon the decision dated 08.02.2007 of Union Public Service Commission to declare the inclusion of the name of R. S. Kaul (Date of Birth : 01.05.1958) as unconditional in the Select List of 2006 prepared, for promotion of State Police Service officers of Madhya Pradesh to Madhya Pradesh Cadre of Indian Police Service, by the Selection Committee in its meeting held on 30.10.2006 and approved by the commission on 20.12.2006 and in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the

President is pleased to appoint Sh. R. S. Kaul (Date of Birth 01.05.1958), a member of Madhya Pradesh Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate him to the cadre of Madhya Pradesh under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) rules, 1954. The appointment will take effect from the date of issue of this notification.

O. S. ASHOK, Under Secy.

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
AND PENSIONS**

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, the 12th February 2007

No. 24012/19/2003-Estt (B)—The President is pleased to appoint Shri Kamlesh Kumar Srivastava, Senior Section Officer, North Eastern Railway, Lucknow as Deputy Director in the Central Regional Office of Staff Selection Commission at Allahabad in the pay scale of Rs. 10,000-375-15,200/- on deputation basis for a period of three years with effect from 22.01.2007 (Forenoon) or until further orders, whichever is earlier.

SUNEEL K. ARORA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 08th February 2007

No. 04/PB-I/2007—The President is pleased to appoint the undermentioned officer belonging to Grade-IV of General Cadre IFS (B) to officiate in Integrated Grade-II & III of General Cadre of IFS (B) with effect from the date shown against his name in terms of Ministry's O. M. No. Q/ CAD/611/6/2004 dated 02nd January 2007:—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of promotion
---------	---------------------	-------------------

1.	Shri Pankaj Kumar Singhal	24.03.2006
----	---------------------------	------------

2. The above mentioned officer has assumed charge of the post of Section Officer with effect from 24th March 2006.

JALADHI MUKHERJEE, Administrative Officer (PB-I)

OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 7th February 2007

No. D-III/460/CF-40/2006—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Vijay Sankar as Honorary Consul of Spain in Chennai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Vijay Sankar comprises Chennai in all the Territory of the District of Chennai.

SHAM K. MUDGIL, Dy. Chief of Protocol (F)

S-422 GE/c6

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 7th February 2007

No. A-12011/2/2006-Admn.II.—In pursuance of Department of Revenue's Office Order No. 215/2006 (F. No. A-22011/8/2006-Ad.II) dated 13.10.2006 and consequent upon grant of proforma promotion in his cadre in the grade of Joint Commissioner (Grade -IV) of Customs and Central Excise by them w.e.f. 13.10.2006 (FN) vide Office Order No. 31/2007 (F. No. C. 50/186/2006-Ad. II) dated 22.01.2007, the President is pleased to appoint Dr. Amandeep Singh, IRS (C&CE : 97) as Officer on Special Duty with effect from the same date i.e. 13.10.2006 (FN), in the personal staff of Minister of State for Finance (Expenditure, Banking & Insurance) (Shri P. K. Bansal) in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/-.

2. The appointment of Dr. Amandeep Singh will be on co-terminus basis with the tenure of Shri P. K. Bansal, Minister of State for Finance (Expenditure, Banking & Insurance) or until further orders, whichever event occurs, the earliest.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

No. A-12011/17/2006-Admn.II.—In continuation of this Department's Notification of even number dated the 2nd November, 2006, the President is pleased to extend the appoint of Smt. Jayanthi Srinivasan, Senior Principal Private Secretary of the CSSS Cader of Ministry of Finance in the same capacity in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs for a further period of six months upto 30.06.2007 or till a regular Sr. PPS becomes available or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion of above officer shall not confer on her any claim for regular appointment or the right to continue indefinitely in the grade of Senior Principal Private Secretary of CSSS. The service rendered by her on ad-hoc basis will not count for the purpose of seniority in the grade or for eligibility for promotion to the next higher grade and she will be reverted as and when Select List persons become available.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 8th February 2007

No. A-12011/15/03-Ad-IA—In continuation of this Department's Notification No. A-12011/15/03-Ad.I dated 13th January, 2006, the term of deputation of Shri V. Prakash in the post of Deputy Director (Budget & Accounts) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs is further extended for the period of six months w.e.f. 10.01.2007 to 09.07.2007.

This issues with the concurrence of the Department of Personnel and Training Estt.(D) vide DOPT U. O. No. C-173/CR/07 dated 6th February, 2007.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

The 15th February 2007

No. A-19012/15/2007-Admn. IA—The President is pleased to appoint Shri V. K. Mann, Junior Technical Assistant, as Economic Officer (Group 'B', Gazetted), in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- on adhoc basis with effect from the forenoon of 12th February, 2007 for a period of one year or till the regular arrangement is made whichever is earlier.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 22nd January 2007

No. A-12026/5/2005-Ad.I—In continuation of this Department's notification of even number dated the 9th November, 2005, the President is pleased to extend the Central Deputation tenure of Shri Atanu Chakraborty, IAS (GJ : 1985) a Joint Secretary (Pers.) in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- with effect from 14.01.2007 for a period of 6 weeks upto 24.02.2007 or till his successor joins, whichever is earlier.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

New Delhi, the 13th February 2007

No. A-22015/1/2004-Ad.I—The President is pleased to appoint Ms. Parama Sen, IA&AS (1994) in the grade of Dy. Secretary in pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- in Ministry of Finance, Department of Expenditure, under the Central Staffing Scheme with effect from the forenoon of 22nd January, 2007 for the balance period of her four year tenure upto 17.07.2010 or until further orders.

B. S. SAMKRIA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 22nd January 2007

No. 2/2007 (A-12022/1/2006/-E.I)—In pursuant to the Department of Personnel & Training's communication No. 20/02/2007 EO (SM-I) dated the 19th January, 2007, the President is pleased to appoint Shri Christy L. Fernandez, IAS (GJ : 73), Additional Secretary in the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce as Special

Secretary (In situ) in the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce in the rank and pay of Secretary by temporarily upgrading the present post held by him with effect from the forenoon of 2nd January, 2007, until further orders.

ANURAG SAXENA, Director

No. 3/2007 (A-12022/1/2006/-E.I)—In pursuant to the Department of Personnel & Training's communication No. 20/02/2007 EO (SM-I) dated the 19th January, 2007, the President is pleased to appoint Smt. Asha Swarup, IAS (GJ : 73), Additional Secretary and Finance Advisor in the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce as Special Secretary (In situ) in the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce in the rank and pay of Secretary by temporarily upgrading the present post held by her with effect from the forenoon of 2nd January, 2007, until further orders.

ANURAG SAXENA, Director

The 23rd January 2007

No. 4/2007 (A-32012/1/2004/-E.I)—In pursuance of Department of Personnel & Training's Orders No. 4/02/2006-CS.I dated the 29th December, 2006, the President is pleased to appoint Shri Ravinder B. Joshi, Under Secretary of Central Secretariat Service (CSS) to Selection Grade (Deputy Secretary) on ad-hoc basis in the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce with effect from the forenoon of 19th January, 2007.

2. The ad-hoc appointment of the above Officer is subject to the following:—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any time without giving any reason therefor.

ANURAG SAXENA, Director

The 31st January 2007

No. 5/2007 (A-12023/1/2006/-E.I)—The President is pleased to appoint Shri Om Prakash as Protocol Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce on deputation basis initially for a period of one year with effect from the forenoon of 31st January, 2007 or until further orders.

ANURAG SAXENA, Director

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC
ENTERPRISES

(DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi-110003, the 9th February 2007

No. A-19011/182/2004-Admn.—Consequent upon the completion of his short term contact in the Department of Public Enterprises, Shri Sanjay Kumar, Deputy Director is repatriated to his parent organization, Bharat Wagon & Engineering Company Ltd., w.e.f. 09-02-2007 (AN) for further directions.

G. S. BASRAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

New Delhi-11003, the 13th February 2007

No. DOD/11/13/97-Estt.—The President is pleased to allow Shri K. A. Renjan, Fishing Master (Jr.), Centre for Marine Living Resources & Ecology (CMLRE), Kochi an attached office of Ministry of Earth Sciences, to retire voluntarily from the Government service in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the forenoon of 1st January, 2007.

KRISHAN KUMAR, Under Secy.

No. DOD/18/03/2006-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Narayanane Saravanane, Scientist 'C' in the Centre for Marine Living Resources & Ecology (CMLRE), Kochi an attached office of Ministry of Earth Sciences in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- (Group 'A' Gazetted, Scientific) with effect from the forenoon of 24th November, 2006 on direct recruitment basis until further orders.

2. He will draw the pay of Rs. 10,000/- in the minimum of the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- and draw the next increment on 01.11.2007, unless changed.

KRISHAN KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 23rd January 2007

No. 17013/6/2006-IFS.II—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect, the following officer of the State Forest Service of Himachal Pradesh, to the Indian Forest Service on the basis of the Select List for the year 2006 and to allocate him to the Himachal Pradesh Cadre of the Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966.

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
---------	---------------------	---------------

1.	Shri Bansilal Negi	10.04.1961
----	--------------------	------------

2. The promotion of the officer is subject to the final outcome of the OA No. 502/2000 pending before the Hon'ble State Administrative Tribunal of Himachal Pradesh.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110003, the 5th February 2007

No. A-11014/2/2004-P.II.—Shri Bhim Singh, Assistant Commissioner of Customs & Central Excise, Customs House, is hereby appointed as Additional Private Secretary in the office of the Minister of State for Environment and Forests in the scale of Rs. 10,000—15,200/- w.e.f the forenoon of 02.02.2007.

2. The appointment of Shri Bhim Singh, will be on co-terminus basis with and at the pleasure of the Minister of State for Environment and Forests.

3. His pay will be drawn under Demand No. 29—Major Head—3451.00.090.290001-Salaries for the year 2006-07 (Non Plan).

KABINDRA JOSHI, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 15th February 2007

No. A-12025/180/2004-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Harvinder Kaur to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 12th October, 2006 until further orders. Dr. Harvinder Kaur is posted as Medical Officer under Lady Hardinge Medical College & Smt. Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi. Dr. Harvinder Kaur shall be on probation for two years.

(Smt.) MAYA PRAKASH, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 11th January 2007

No. A-32013/10/2004-E.I.—Consequent upon their promotion to Grade-I (Under Secretary) of CSS on ad-hoc basis vide Department of Personnel & Training's Order No. 5/8/2006-CS.I dated 12th December, 2006, the President is pleased to appoint the following Section Officers of CSS, as the Under Secretary in the Department of Health & Family Welfare, purely on ad-hoc basis w.e.f. the date mentioned against each;—

1.	Sh. Mohd. Saleem	22.12.2006 (FN)
2.	Smt. Meenu Batra	09.01.2007 (FN)

The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select list for regular appoint or to claim seniority in the Grade-I.

Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

The 6th February 2007

No. A-32013/2/2005-E.I—Consequent upon his promotion to the Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) on ad-hoc basis vide Department of Personnel & Training's Order No. 4/02/2006-CS.I dated 29.12.2006, the President is pleased to appoint Shri Mohan Singh, CSS to the post of Deputy Secretary in the Department of Health & Family Welfare, on ad-hoc basis w.e.f. the afternoon of 01.02.2007 (FN) and until further orders. The ad-hoc promotion is subject to the following conditions:—

- I. The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select list for regular appoint or to claim seniority in the Selection Grade.
 - II. Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.
2. On promotion, he is posted to DGHS w.e.f. 01.02.2007.

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA &
NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND
HOMOEOPATHY (AYUSH)

New Delhi, the 16th January 2007

No. A-12022/1/99-ISM (E-II)—The President is pleased to appoint Shri Sanjeev Kumar Chadha, an officer belonging to Indian Forest Service (OR : 89) as Director on Central Deputation in the Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), Ministry of Health & Family Welfare with effect from the afternoon of 8th January, 2007 for a period of 5 years or until further orders, whichever is earlier.

ANSHUMANN SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 5th February 2007

No. 27-2701/2007-E-I—The President is pleased to appoint Shri Siddharth Singh, a regular Private Secretary in the Department of Agriculture & Cooperation as Assistant Private Secretary (Rs. 6,500-200-10,500/-) in the personal

staff of Hon'ble Minister of State for Agriculture (Shri Kanti Lal Bhuria) w.e.f. the forenoon of 12.01.2007.

2. The appointment of Shri Singh as Assistant Private Secretary will be co-terminus with the tenure of MOS(A).

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 8th February 2007

No. 12025/1/2003-E.II—The President is pleased to appoint Dr. Sushanta Kumar Sarkar as Deputy Commissioner (Horticulture) in the Department of Agriculture & Cooperation on direct recruitment basis in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from the forenoon of 23rd January, 2007.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 5th February 2007

No. A-19012/2/2007-EA—The President is pleased to appoint Shri Ashwini Kumar, a Junior Time Scale (JTS) officer of Indian Economic Service (IES), to the post of Assistant Director in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the forenoon of the 23rd October, 2006.

RAJ KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 6th February 2007

No. 4-9/2006-Extn.—The President is pleased to appoint Shri P. N. Gaba, Asstt. Extension Officer to the post of Extension Officer, General Central Service, Group-A Gazetted in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in the Directorate of Extension on regular basis w.e.f. the forenoon of 24th January, 2007 until further orders.

RANI TALREJA, Under Secy.

COMMISSION FOR AGRICULTURAL COSTS AND
PRICES

New Delhi, the 9th February 2007

No. 3-2/2007-Admn.—Consequent upon his selection to the post of Economic Officer (General Central Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial), Shri Rajesh Kumar Sharma has assumed the charge of the post of Economic Officer in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- on deputation basis for a period of 3 years in the Commission for Agricultural Costs and Prices with effect from the Forenoon of 09th February, 2007.

R. S. THAKRAN, Director

FISHERY SURVEY OF INDIA
(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING
AND FISHERIES)

Mumbai, the 28th November 2006

No. 2-167/99-E.I.—The undersigned as the Appointing Authority is pleased to promote S/Shri G. Nagarajan, Jr. Fisheries Scientist Gr.-II, A. K. Malik, Jr. Fisheries Scientist Gr.-II, N. Jagannadh, Jr. Fisheries Scientist Gr.-II, S. G. Patawari, Jr. Fisheries Scientist Gr.-II, and P. Tamilarasan, Jr. Fisheries Scientist Gr.-II to the post of Jr. Fisheries Scientist Gr.-I (General Central Service Group 'B' Gazetted—Non-ministerial) in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- on regular basis with effect from 10.01.2006 (FN), in Fishery Survey of India.

They will be placed on probation for a period of two years w.e.f. 10.01.2006.

Dr. V. S. SOM VANSHI, Director General

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 16th November 2006

No. A-19011/10/2006-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training (Office of the Establishment Officer) OM No. 4/34/2006-EO (MM-I) dated 5th October, 2006, Ms. Roopa Srinivasan, IRAS (1989) has assumed the charge of the post of Director in the Ministry of Culture in the afternoon of 10th November, 2006 for a period of five years i.e., upto 9th November, 2011 or until further orders, whichever event takes place earlier.

A. MURUGAIYAN, Under Secy.

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND
EMPOWERMENT**

New Delhi-1, the 7th February 2007

No. 17014/32/97-SCD-IV—In pursuance of Article 52 (v) of Memorandum of Association & Articles of Association of National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation, the President is pleased to appoint Shri Rakesh Mittal, Asstt. Director General, Defence Estates as a representative of Cantonment Board as Official Director in place of Shri B. A. Dhayalan on the Board of Directors of National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation with immediate effect and until further orders.

NILAMBUJ SHARAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi-110001, the 9th February 2007

No. 11036/9/2006-PC&V—In supersession of this Ministry's Notification No. 11036/9/2006-PC&V dated 7th November, 2006, and in terms of Section 19 (1) of the Right to Information Act, 2005, Dr. Bachittar Singh, Joint Secretary in the Ministry of Tribal Affairs is hereby designated as Appellate Authority, for the Ministry of Tribal Affairs for the purpose of the Implementation of the Right to Information Act, 2005.

PRADEEP KUMAR, Under Secy.

No. 11036/9/2006-PC&V—In supersession of this Ministry's notification No. 11036/9/2006-PC&V dated 22.09.2006, and in terms of Section 5 (1) of the Right to Information Act, 2005, the following officers of the Ministry of Tribal Affairs are hereby designated as Central Public Information Officers in respect of the specific subject matters mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Designation	Telephone Number	Subject matter
1	2	3	4	5
	S/Shri			
1.	Ms. Juthika Patankar	Director (Education Division)	23073176	1. Article 275 (1) 2. Boys Hostel and Girls Hostel 3. Ashram School 4. Vocational Training Centres (minus NGOs) 5. Post Matric Scholarship 6. Upgradation of Merit 7. National Overseas Scholarship Scheme 8. Rajeev Gandhi Fellowship Scheme 9. ST (Recognition of Forest Rights) Act 10. Vigilance

Subject : Education

1	2	3	4	5
	S/Shri			
2.	B. S. Kharmawphlang	Director (Research & Media Division)	26182428	<ol style="list-style-type: none"> 1. All matters pertaining to Tribal Research Institutes 2. Film/Media/Publicity/Janjatiya Jagran 3. Scheme of exchange of visits by tribals 4. All policy matters relating to ILO Convention etc. 5. SA&ST Commission—residual work 6. NITA etc.
3.	Bharat Lal	Director (State Grants Division)	23387444	<ol style="list-style-type: none"> 1. Special Central Assistance to Tribal Sub Plan 2. National Scheduled Tribes Finance & Development Corporation/STFDC 3. International Projects 4. Information Technology 5. Work relating to TSP including compilation of State/Central Ministry-wise status/profile.
4.	Anurag Bajpai	Deputy Secretary (NGO Division)	23070508	<ol style="list-style-type: none"> 1. All matters relating to Grants-in-Aid Schemes to Non Governmental Organisation (NGOs) 2. Vocational Training Centres (only NGOs) 3. Schemes relating to Primitive Tribal Groups 4. Coaching and Allied Schemes 5. Rehabilitation and Settlement; 6. Irrigation Projects and Power Projects including Sardar Sarovar Projects 7. Tribal Policy <p>Subject : <u>Health including Malnutrition, Food</u></p>
5.	C. Gosakan	Deputy Secretary (CP&R Division)	26182814	<ol style="list-style-type: none"> 1. All matters relating to TRIFED & minor Forest Produce 2. Price Support Scheme 3. Investment in TRIFED Scheme 4. Grants to STDCCs/FDCs/LAMPS 5. Acquisition of Land concerning Tribals 6. Land Alienation/Transfer regulations 7. Money lending/Debt Relief 8. Excise Policy in Tribal Areas 9. Annual Social Defence/Welfare Fair 10. Standing Committee of Planning Commission 11. National Common Minimum Programme 12. NAC 13. Cabinet Committee on Tribal Affairs <p>Subject : <u>Rural Development (Land)</u></p>
6.	S. K. Gupta	Deputy Secretary (IFD)	23385487	<ol style="list-style-type: none"> 1. All Planning Commission matters including Five Year Plans, Zero based budgeting, Annual Plans including Non-Plans, Half Yearly Progress etc. 2. Finance Commission matters. 3. Finance (IFD) 4. All matters relating to Budget 5. Detailed Demands for Grants 6. Performance Budget 7. Outcome Budget 8. General Financial Performance of the Ministry,

1	2	3	4	5
				9. Monthly review of expenditure including peparation of State-wise/Scheme-wise statement of unspent balance and Quarterly Progress Report of unspent balances under FRBM Act. 10. Compilation of scheme-wise expenditure in North Eastern States. 11. Audit work. 12. <u>Compilation and Monitoring of out come.</u> <u>Subject : Budget, Planning Commission matter/ General Financial Performance of the Ministry including monthly expenditure.</u>
7. Dr. C. V. Dharma Rao	Deputy Secretary (Estt. Genl., Admn. & Cash Division)	23073706	(A) <u>Establishment matters of the Ministry</u>	1. All Establishment matters like appointment, promotion, relieving, etc. 2. Retirement and pensionary benefit cases; 3. Service matters of the employees like pay fixation, stepping of the pay, Annual increments etc. 4. Cases of advances like House Building Advance, Motor Car Advance, Motor Cycle Advance, LTC Advance; 5. Medical Reimbursement, permission for medical treatment; 6. Filling up of posts under Central Staff Scheme as well as ex-cadre posts 7. Recruitment Rules for ex-cadre posts; 8. Maintenance of service records; 9. ACP Cases; 10. ACC Cases; 11. Maintenance of ACRs; 12. Training circulars; 13. Cases under Conduct Rules; 14. Establishment matters relating to Minister's staff; 15. Work relating to the Annual Report of the Ministry; 16. Parliamentary matters, including Standing Committees; 17. Coordination work of the Ministry including O&M/ IWSU, official language section, Right to Information Act, Tribal Festival and Republic Day, Minister's Discretionary Fund. (B) <u>Administrative matters relating to National Commission for Scheduled Tribes</u> (C) <u>General Administration, CR Unit and Cash Matters</u> 1. Procurement and Distribution of Stores (Stationery and Consumables); 2. Procurement and Distribution of electronic office equipments (FAX/Photocopier/Reso/Computer); 3. Renovation of Official accommodation; 4. Government Accommodation for staff; 5. Maintenance of all office equipment, including Staff Cars; 6. Payment of Telephone Bills (MTNL, Mobile, VCC Card);

1	2	3	4	5
				7. Issuing of Identity Card/Airport Entry Card/CGHS Card/Car Parking Passes, etc; 8. Purchase of ACs and Coolers and their maintenance; 9. Hiring of persons for cleanliness work; 10. Procurement of furniture and its distribution; 11. Provisin of intercom facility; 12. Printing of stationery, files, letter heads, visiting cards; 13. Provision of safe drinking water; 14. Purchase of Books, Magazines, Papers and payment of Bills thereof; 15. Risograph work; 16. All other matters related to General Section; 17. Cash Section matters; 18. Central Registry; 19. Other residual matters akin to General Administration
				Subject : <u>Environment & Forests</u>
8. Ms. Santosh	Deputy Secretary (MER Division)	26182823		1. Census Matters, Compilation of ST specific statistical data/Statistics pertaining to STs. 2. Monitoring & evaluation of all the schemes and thematic subjects/issues 3. Point 11(b) of 20-Point Programme including MNP. 4. Grants for Research Projects, Seminars, Publications, Fellowships including grants under Monitoring and Evaluation Head 5. Gender Budgeting 6. Reservation in senior posts under Central/State/PSU, complaints etc. and matters relating thereto 7. PCR Act/Protection of Atrocities Act/Atrocities on STs 8. Profiles/States/Briefing notes on all States/UTs 9. Matters relating to Citizens charter
9. Dr. N. K. Ghatak	Joint Director (C & LM Division)	23073176		1. Scheduling/De-scheduling of STs & Court cases connected therewith. 2. National Commission for STs—All work excluding administrative work 3. All Constitutional Matters 4. Delineation of TSP Areas including ITDP/MADA/Clusters 5. Matters relating to 5th Schedule including Governor's Report & Tribes Advisory Councils. 6. Matters relating to 6th Schedule 7. All matters relating to Panchayati Raj and other local Institutions 8. All policy matters relating to declaratin etc. of PTGs (except schemes for PTGs)

Note :— (i) Office of CPIOs mentioned at Sl. No. 2, 5 and 8 is at August Kranti Bhawan, R. K. Puram, New Delhi.

(ii) Appellate Authority—Dr. Bachhitar Singh, Joint Secretary, Tele: 23073817.

PRADEEP KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATION & IT
(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATION)

New Delhi-110001, the November 2006

Sub: Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of result of Civil Services (Main) Examination, 2004.

No. 7-03/2005-SEA.I—On the basis of the Civil Services (Main) Examination, 2004 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Ms. Tina Soni (Rank No. 195) (OBC) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on the following terms :—

(i) The post is permanent but she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render her liable to be discharged from service or reversion to her substantive post on which she may be retaining a lien, as the case may be.

(ii) The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

(iii) The appointment of the female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

(iv) The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the ALTTC. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.

(v) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.

(vi) The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.

(vii) Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to clearance of verification of character and antecedents by the Department of Personnel and Training.

7-422 GI/06

3. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

4. The receipt of this letter may please be acknowledged.

DIPANKAR MAHTO, Asstt. Director General (SEA)

To

Ms. Tina Soni,
C/o Course Coordinator,
NIFM, Faridabad
Haryana

Sub: Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of result of Civil Services (Main) Examination, 2005.

No. 7-03/2006-SEA.I—On the basis of the Civil Services (Main) Examination, 2005 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Ms. Saratha G. (Rank No. 164) (GEN) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on the following terms :—

(i) The post is permanent but she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render her liable to be discharged from service or reversion to her substantive post on which she may be retaining a lien, as the case may be.

(ii) The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

(iii) The appointment of the female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

(iv) The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the ALTTC. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.

(v) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.

(vi) The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.

(vii) Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to clearance of verification of character and antecedents by the Department of Personnel and Training.

3. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

4. The receipt of this letter may please be acknowledged.

DIPANKAR MAHTO, Asstt. Director General (SEA)

To

Ms. Saratha G.,
C/o Director,
LBSNAA, Mussorie.

Sub: Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of result of Civil Services (Main) Examination, 2005.

No. 7-03/2006-SEA.I—On the basis of the Civil Services (Main) Examination, 2005 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Shri Mani Ram Sharma (Rank No. 378) (PH) (GEN) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on the following terms :—

(i) The post is permanent but he will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him liable to be discharged from service or reversion to him substantive post on which he may be retaining a lien, as the case may be.

(ii) The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

(iii) The appointment of the female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

(iv) The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the ALTTC. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.

(v) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.

(vi) The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.

(vii) Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to clearance of verification of character and antecedents by the Department of Personnel and Training.

3. The candidate who has joined the Foundation Course/NIFM Course/ALTTC Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Course.

4. The receipt of this letter may please be acknowledged.

DIPANKAR MAHTO, Asstt. Director General (SEA)

To

Mr. Mani Ram Sharma,
Village Badan Garhi,
Post Akhaigarh,
Teh. Nadbai,
Disstt. Bharatpur
Rajasthan

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 12th February 2007

No. 2(6)/2006-Pers.I—The President is pleased to appoint Dr. N. Vijayaditya as Controller of Certifying Authorities under Section 17 of the Information Technology Act, 2000 for a period of three years or till he attains the age of 65 years, or until further orders, whichever is earliest with effect from 09.02.2007 (FN) in the pay scale of Rs. 22,400-525-24,500/- plus allowances as admissible under the rules.

ARUNA NAYAR, Director

MINISTRY OF RAILWAYS

RAILWAY BOARD

New Delhi, the 12th February 2007

No. 2000/E(GR)II/7/30—The President is pleased to appoint Dr. Lakshmi Gopalakrishnan as Senior Divisional Medical Officer in the Indian Railway Medical Service with effect from 23.07.2004.

DEBASIS MAZUMDAR, Jt. Director Estt. (Gaz.)

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT &
HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi, the 9th February 2007

No. LH-21013/1/2004-SL—The President is pleased to promote Shri A Yesudasan, Junior Engineer (Civil) to the post of Assistant Engineer (Civil) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Directorate of Lighthouses & Lightships with effect from the forenoon of 9th October, 2006, until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 1st February 2007

No. 04/07. F. No. 2/3/07-Adm.II.—The President is pleased to appoint Shri Anil Razdan, IAS (HY : 1973), as Secretary, Ministry of Power with effect from the forenoon of the 1st February, 2007, until further orders.

R. C. ARORA, Under Secy.

New Delhi, the 7th February 2007

No. 46/10/2005-R&R—In terms of section 113 (3) of the Electricity Act, 2003, the President hereby appoints Ms. Justice Manju Goel as Judicial Member of the Appellate Tribunal for Electricity for a period of three years from the afternoon of 25th January 2007 or till she attains the age of 65 years, whichever is earlier.

2. The appointment of Ms. Justice Manju Goel as Judicial Member of the Appellate Tribunal for Electricity will be governed by the Appellate Tribunal for Electricity (Salaries, allowances and other conditions of service of Chairperson and Members) Rules, 2004.

ALOK KUMAR, Director